

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2016—माघ 12, शक 1937

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. एफ-35-71-2015-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा विधान सभा उप चुनाव 2016 मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र 65—मैहर, जिला सतना के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. रेंज पुलिस महानिरीक्षक, रीवा.
4. जिला सतना व उनके अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.